



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 माघ 1941 (श0)

(सं० पटना 139) पटना, वृहस्पतिवार, 13 फरवरी 2020

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

13 जनवरी 2020

सं० वन अरा०स्था०-14/2012-98/प०व०ज०प०—भारत संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार अवर वन सेवा नियमावली, 2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।

- (1) यह नियमावली, “बिहार अवर वन सेवा (संशोधन) नियमावली, 2019” कही जा सकेगी।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह राजकीय गजट में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. बिहार अवर वन सेवा नियमावली, 2013 के परिशिष्ट ‘क’ की कंडिका 6(ii) एवं 6(iii) का प्रतिस्थापन।—उक्त नियमावली के परिशिष्ट-“क” की कंडिका-6(ii) एवं 6(iii) को निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

- 6 (ii) बिहार राज्य के वन प्रमंडलों में, संबधित नियुक्ति पदाधिकारियों द्वारा, विहित रीति से आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की पुलिस से चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में औपबंधिक रूप से नियुक्ति की जा सकेगी।
- 6 (iii) पुलिस से चरित्र सत्यापन प्राप्त होने पर औपबंधिक नियुक्ति की तिथि से ही स्थायी नियुक्ति की जायेगी। सत्यापन प्रतिकूल रहने की स्थिति में उनकी सेवा तत्काल समाप्त की जायेगी।

3. बिहार अवर वन सेवा नियमावली, 2013 के परिशिष्ट ‘ख’ की कंडिका 7(ii) एवं 7(iii) का प्रतिस्थापन।—उक्त नियमावली के परिशिष्ट-“ख” की कंडिका-7(ii) एवं 7(iii) को निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

- 7 (ii) बिहार राज्य के वन अंचलों में, संबधित नियुक्ति पदाधिकारियों द्वारा, विहित रीति से आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की पुलिस से चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में औपबंधिक रूप से नियुक्ति की जा सकेगी।

- 7 (iii) पुलिस से चरित्र सत्यापन प्राप्त होने पर औपबन्धिक नियुक्ति की तिथि से ही स्थायी नियुक्ति की जायेगी। सत्यापन प्रतिकूल रहने की स्थिति में उनकी सेवा तत्काल समाप्त की जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
दीपक कुमार सिंह
सरकार के प्रधान सचिव।

The 13th January 2020

No. Van Ara. Astha- 14/2012-98/E.F& CC--In exercise of the powers conferred by proviso to Article- 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the Bihar Subordinate Services Rules, 2013 (as amended from time to time):-

1. Short title, extent and commencement :-

1. These Rules may be called the “Bihar Subordinates Forest Services (Amendment) Rules, 2019”.
2. It shall extend to the whole of the State of Bihar.
3. It shall come into force with effect from the date of its publication in the official gazette.

2. Substitution of Para 6(ii) and 6(iii) of Appendix-A of the Bihar Subordinate Forest Service Rules 2013 - Para 6(ii) and 6(iii) of Appendix-A of the said Rules shall be substituted by the followings :-

- 6(ii) The concerned appointing officers of Forest Division of the Bihar State, in anticipation of police character verification of the candidates, who have been recommended by the Commission could appoint them provisionally in prescribed way.
- 6(iii) The permanent appointment of the candidates shall be done from the date of provisional appointment after getting the character verification of the Police. In case of adverse verification, the candidate's services shall be terminated immediately.

3. Substitution of Para 7(ii) and 7(iii) of Appendix-B of the Bihar Subordinate Forest Service Rules 2013 - Para 7(ii) and 7(iii) of Appendix-B of the said Rules shall be substituted by the followings :-

- 7(ii) The concerned appointing officers of Forest Circle of the Bihar State, in anticipation of police character verification of the candidates, who have been recommended by the Commission could appoint them provisionally in prescribed way.
- 7(iii) The permanent appointment of the candidates shall be done from the date of provisional appointment after getting the character verification of the Police. In case of adverse verification, the candidate's services shall be terminated immediately.

By order of the Governor of Bihar,
Dipak Kumar Singh,
Principal Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 139-571+500-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>